

आज दिनांक 2 मई, 2018 को सायं 04:00 बजे मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने **ई-वे बिल** पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय ई-वे बिल राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर 50 हजार से अधिक मूल्य के सड़क परिवहन पर मोटर वाहन से जाने के लिए निर्धारित की गयी है। [ewaybillgst.gov.in](http://ewaybillgst.gov.in) पर जाकर कारोबारियों एवं ट्रांसपोर्टर को अपना login पंजीकृत करना होगा। ट्रांसपोर्टर-आई.डी. ई-वे बिल के लिए वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी भरनी होंगी ताकि ई-वे बिल का Part-B जिसमें वाहन की संख्या, बिल्टी नंबर, आदि भरी जा सके। यदि वाहन की संख्या एवं माल का गंतव्य परिवर्तित होता है और माल पहुंचने की वैद्यता तिथि समाप्त हो रही है तो ट्रांसपोर्टर अपनी login आई.डी. से पुनः वाहन संख्या भर सकता है तथा वैद्यता की तिथि बधाई जा सकती है। वर्तमान समय में हर invoice का एक ही ई-वे बिल जनित करना होगा। ट्रांसपोर्टर को 50 किलोमीटर तक के स्थान पर ई-वे बिल का Part-A भर कर भेजा जा सकेगा। धरम कांटे में वजन करने हेतु 20 किलोमीटर तक माल को भेजा जा सकता है परन्तु डिलीवरी चालान संलग्न होना चाहिए (जिसके लिए ई-वे बिल आवश्यक नहीं होगा), यह जानकारी श्री के.एम.मिश्रा, **जॉइंट कमिश्नर, GST, कानपुर** ने दिया।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में श्री **शैलेन्द्र वाष्णीय, उपायुक्त**, ने पॉवर-पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया। ई-वे बिल सिस्टम के बारे में कारोबारियों को अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं, ई-वे पोर्टल पर डाक्यूमेंट्स या जानकारी को किस प्रकार को अपलोड करना होगा, पर विस्तृत जानकारी दी गयी।

शंका-समाधान सत्र में VAT की तर्ज पर डाक्यूमेंट्स ट्रान्सफर में सेल का “बिल्ड टू शिप्ट टू” के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया, ई-वे पोर्टल पर इसकी पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है। माल खरीददारी के बाद क्रेता किसी अन्य व्यापारी को उसकी डिलीवरी प्रदान कर सकता है। विक्रेता द्वारा यदि माल किसी अन्य स्थान से डिस्पैच किया जाना है तो ई-वे बिल पोर्टल पर जानकारी के लिए कॉलम उपलब्ध कराया गया है।

कार्यशाला की अध्यक्षता श्री बी.के लाहोटी, अध्यक्ष, मर्चेट चैम्बर ऑफ यू.पी., सत्र का संचालन जी.एस.टी. कमिटी के चैयरमैन श्री संतोष कुमार गुप्ता, स्वागत-भाषण श्री बी.एम. गर्ग, उपाध्यक्ष, मर्चेट चैम्बर ऑफ यू.पी., तथा धन्यवाद-प्रस्ताव श्री प्रेम मनोहर गुप्ता ने किया।

आयोजित सत्र में श्री शेष नारायण त्रिवेदी, श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तवा, श्री उमंग अग्रवाल, तथा मर्चेट्स चैम्बर के सदस्यगण, व्यापारिगण, उद्यमीगण, अन्य व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण तथा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

धन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश